

तीन गणपति विशेष ट्रेनों को पालघर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव का निर्णय

मुंबई। गणपति महोत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए और त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए, पश्चिम रेलवे ने 3 गणपति विशेष ट्रेनों की 12 सेवाओं के परिचालन की घोषणा की थी, जिनमें एक ट्रेन अहमदाबाद और कुडाल के बीच, एक अहमदाबाद और सावंतवाड़ी रोड के बीच तथा एक वडोदरा और रत्नागिरी के बीच विशेष किराये पर चलने वाली हैं। यात्रियों को और अधिक लाभान्वित करने के लिए, अब पालघर स्टेशन पर इन तीनों ट्रेनों को एक अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ट्रेन नंबर 09416/09415 अहमदाबाद – कुडाल (साप्ताहिक) स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर विशेष ट्रेन, ट्रेन नंबर 09418/09417 अहमदाबाद – सावंतवाड़ी रोड (साप्ताहिक) विशेष किराये पर विशेष ट्रेन और ट्रेन संख्या 09106/09105 वडोदरा – रत्नागिरी (साप्ताहिक) विशेष किराये पर विशेष ट्रेन अब पालघर स्टेशन पर भी रुकेगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत मडूरे-पेरनेम सेक्शन में यातायात की बहाली का पूर्वानुमान 10 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाये जाने के कारण कुछ ट्रेनों को रद्द या डाइवर्ट करने का फैसला किया गया है। तदनुसार, ट्रेन नंबर 02432/ 02431 नई दिल्ली – त्रिवेन्द्रम 23 अगस्त से 11 सितम्बर, 2020 तक (18 ट्रिप) रद्द कर दी गई है, वहीं 19 अगस्त, 2020 को छूटने वाली ट्रेन नंबर 02432 नई दिल्ली – त्रिवेन्द्रम को परिवर्तित मार्ग पनवेल-पुणे- मिरज जंक्शन- लोंडा जंक्शन- मडगाँव पर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह, वापसी दिशा में, 21 अगस्त, 2020 को छूटने वाली ट्रेन नंबर 02431 त्रिवेन्द्रम – नई दिल्ली डायवर्टेड रूट मडगाँव- लोंडा जंक्शन -मिरज जंक्शन- पुणे- पनवेल पर चलेगी। 22 और 29 अगस्त तथा 5 सितम्बर, 2020 को छूटने वाली ट्रेन नंबर 02284 निजामुद्दीन – एर्नाकुलम डायवर्टेड रूट पनवेल – पुणे- वाडी- गुंटकल जंक्शन-रेनिगुन्टा जंक्शन -मेलपक्कम- जोलारपेट्टई पर चलेगी। इसी तरह, वापसी दिशा में 25 अगस्त और 1 एवं 8 सितम्बर, 2020 को छूटने वाली ट्रेन नंबर 02283 एर्नाकुलम- निजामुद्दीन डायवर्टेड रूट जोलारपेट्टई – मेलपक्कम- रेनिगुन्टा जंक्शन – गुंटकल जंक्शन- वाडी- पुणे- पनवेल पर चलेगी।